



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिष्ठकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 374] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1979/अग्रहायण 9, 1901  
No. 374] NEW DELHI, FRIDAY, NOV. 30, 1979/ AGRAHAYANA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 656(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क  
(विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की  
उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8  
के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत  
सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 152/78,

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 अगस्त, 1978 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मव सं. 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी को, जिसकी निकासी 1 दिसम्बर, 1979 को या उसके पश्चात् की जाए, उस पर उद्ग्रहणीय उसने उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जिसना, क्रमशः, सवा चौबीस प्रतिशत और छह प्रतिशत की दर से संगणित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से अधिक हो ।

[सं. 300/79-सी ई/फा. सं. 14/57/79-सी एक्स 1]

सी. एन. बालाकृष्णन नायर, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 1979

**CENTRAL EXCISES**

**G.S.R. 656(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 152/78-Central Excises, dated the 16th August, 1978, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), cleared on or after the 1st day of December, 1979, from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and additional duty calculated at twenty-four and a quarter per cent and six per cent respectively.

[No. 300/79-CE/F. No. 14/57/79-CX. I]

C. N. BALAKRISHNAN NAIR, Under Secy.